



Date:	Question bank - 11	Subject:Hindi
Class:VI	अन्याय के विरोध में	Max. Marks

* निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

१ लेखक के चरित्र की विशेषताएँ बताओ ।

२ लेखक जूलिया को क्या समझाना चाह रहे थे ?

३ जूलिया के व्यक्तित्व में किन - किन गुणों की झलक मिलती है?

४ जूलिया ने क्या तोड़ डाला था ?

अपठित गद्यांश

एक बार ऋषि कुमार हरित अपने साथियों के साथ स्नान के लिए जा रहा था । उसने रस्ते में घायल अवस्था में पड़े एक तोते के बच्चे को देखा । उसने अपने एक साथी ऋषिकुमार से कहा की यह तोते का बच्चा या तो वृक्ष की चोटी से गिरा है या बाज़ के मुख से गिरा है । इसमें थोड़े ही प्राण हैं । इसकी आँखें कुछ - कुछ बंद है , यह लम्बी - लम्बी सांसे खींच रहा है , बार - बार अपनी चोंच को खोल रहा है । यह अपनी गर्दन को भी नहीं उठा सकता , इसलिए इसे उठाकर तालाब पर ले चलें । यह कहकर हरित ने तोते के बच्चे को उठा लिया तथा तालाब पर ले जाकर उसके मुख में पानी की कुछ बूंदें डालीं । पानी पिने तथा उसके छींटों से उसमें प्राणों का संचार हो गया । तब उसे कमलिनी के एक पत्ते पर रखकर ठंडी छाया में रख दिया । इसके बाद उसने स्नान , प्राणायाम कर भगवान सूर्य को अर्ध प्रदान कर तालाब से बाहर आकर कपड़े पहने । इसके बाद तोते के उस बच्चे को लेकर तपोवन की ओर चल पड़े ।

१. हरित ने रस्ते में क्या देखा ?
२. उसकी आँखें कैसी थीं ?
३. हरित उस बच्चे को कहाँ ले गया ?
४. पानी पिने तथा छींटे मारने से क्या हो गया ?
५. उसने उस तोते के बच्चे को किस पर रख दिया ?

* क्या आपने कभी राह चलते किसी दुकान पर या अपने आस - पास किसी के साथ अन्याय होते देखा है? यदि हाँ तो उस समय आपके मन में किस प्रकार के विचार उठे ? लिखिए ।

* निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए ।

१ लापरवाही -

२ तनख्वाह -

३ क्रूर -

४ भीरु -

* मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए ।

१ अक्ल का दुश्मन -

२ आग बबूला होना -

३ आँखें बिछाना -

४ किताबी कीड़ा -

५ घुटने टेकना -